

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 15 मार्च 2014—फाल्गुन 24, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2014

क्र. 14-वि. निर्वा.-चार-2014-177.—विधि मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं.

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक F H-11024(2)/2014-Leg-II, दिनांक 15 मार्च, 2014
2. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 464/2014 (3A), दिनांक 15 मार्च, 2014

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2014 फाल्गुन 24, 1935 (शक)

अधिसूचना

का०आ० :..... (अ) — पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :

सारणी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	1-अरुणाचल पश्चिम 2-अरुणाचल पूर्व
छत्तीसगढ़	10-बस्तर (अ०जा०जा०)
हरियाणा	1- अम्बाला (अ०जा०) 2-कुरुक्षेत्र 3-सिरसा (अ०जा०) 4-हिसार 5-करनाल 6-सोनीपत 7-रोहतक 8-भिवानी-महेन्द्रगढ़ 9-गुड़गांव

(1)

(2)

	10-फरीदाबाद
जम्मू और कश्मीर	6-जम्मू
झारखंड	4-घतरा
	5-कोडरमा
	12-लोहरवाड़ा (अ0ज0जा0)
	13-पलामू (अ0जा0)
केरल	1-कासरागोड
	2-कन्नूर
	3-वडकुरा
	4-वयनाड
	5-कोझीकोड
	6-मलपुरम
	7-पोन्नानी
	8-पालाक्काड
	9-अलथूर-(अ0जा0)
	10-त्रिस्सूर
	11-वालाकुडी
	12-एरनाकुलम
	13-इडुक्की
	14-कोट्टयम
	15-अलप्पुझा
	16-मावेलीक्करा-(अ0जा0)
	17-पथनमीट्टल
	18-कोल्लम
	19-अट्टिगल
	20-तिरुवनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	09-सतना
	10-सीवा
	11-सीधी
	12-शहडोल (अ0ज0जा0)

(1)

(2)

	13-जबलपुर
	14-मण्डला (अ०ज०जा०)
	15-बालाघाट
	16-छिन्दवाड़ा
	17-होशंगाबाद
महाराष्ट्र	5-बुलढाणा
	6-अकोला
	7-अमरावती (अ०जा०)
	8-वर्धा
	9-रामटेक (अ०जा०)
	10-नागपुर
	11-भंडारा-गोंदिया
	12-गडचिरोली-चिमुर् (अ०ज०जा०)
	13-चन्द्रपुर
	14-यवतमाल-वाशिम
मणिपुर	2-बाह्य मणिपुर (अ०ज०जा०)
मेघालय	1-शिलांग (अ०ज०जा०)
	2-तुरा (अ०ज०जा०)
मिजोरम	1- मिजोरम (अ०ज०जा०)
नागालैंड	1-नागालैंड
उड़ीसा	1-बारगढ़
	2-सुन्दरगढ़ (अ०ज०जा०)
	3-सम्बलपुर
	10-बोलंगीर
	11-कालाहाण्डी
	12-नबरंगपुर (अ०ज०जा०)
	13-कंधामल
	19-अस्का
	20-बरहामपुर
	21-कोरामुट (अ०ज०जा०)

(1)

(2)

उत्तर प्रदेश	1-सहारनपुर
	2-कैराना
	3-मुजफ्फरनगर
	4- बिजनौर
	10-मेरठ
	11-बागपत
	12-गाजियाबाद
	13-गौतमबुद्ध नगर
	14-बुलन्दशहर (अ.जा.)
	15-अलीगढ़
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
चंडीगढ़	1-चंडीगढ़
लक्षद्वीप	1-लक्षद्वीप (अ०ज०जा०)
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	1-चांदनी चौक
	2- उत्तर पूर्व दिल्ली
	3- पूर्व दिल्ली
	4- नई दिल्ली
	5-उत्तर पश्चिमी दिल्ली (अ.जा.)
	6-पश्चिम दिल्ली
	7-दक्षिण दिल्ली

(पी. के. मल्होत्रा)

सचिव, भारत सरकार

[फा. एच. 11024(2)/2014-वि. 2]

Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department

New Delhi, the 15th March, 2014 Phalguna 24, 1935 (Saka)

Notification

S.O. (E).- Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territories, as the case may be, of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Uttar Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Lakshadweep and NCT of Delhi, as specified in column (1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

State/Union territory (1)	Parliamentary Constituency (2)
ARUNACHAL PRADESH	1-Arunachal West 2-Arunachal East
CHHATTISGARH	10-Bastar (ST)
HARYANA	1-Ambala (SC) 2-Kurukshetra 3-Sirsa (SC) 4-Hisar 5-Karnal 6-Sonipat 7-Rohtak 8-Bhiwani – Mahendragarh 9- Gurgaon 10-Faridabad
JAMMU & KASHMIR	6-Jammu
JHARKHAND	4-Chatra 5-Kodarma 12-Lohardaga (ST) 13-Palamu (SC)

(1)

(2)

KERALA	1-Kasaragod
	2 -Kannur
	3 -Vadakara
	4 -Wayanad
	5 -Kozhikode
	6 -Malappuram
	7 -Ponnani
	8 -Palakkad
	9 -Alathur (SC)
	10-Thrissur
	11-Chalakydy
	12 -Ernakulam
	13 -Idukki
	14 -Kottayam
	15 -Alappuzha
	16 -Mavelikkara (SC)
	17 -Pathanamthitta
	18 -Kollam
	19 -Attingal
	20 -Thiruvananthapuram
MADHYA PRADESH	9-Satna
	10-Rewa
	11- Sidhi
	12-Shahdol (ST)
	13-Jabalpur
	14-Mandla (ST)
	15-Balaghat
	16-Chhindwara
17- Hoshangabad	
MAHARASHTRA	5-Buldhana
	6-Akola
	7-Amravati (SC)
	8-Wardha
	9-Ramtek (SC)
	10-Nagpur
	11-Bhandara-Gondiya
	12-Gadchiroli-Chimur (ST)
	13-Chandrapur
	14-Yavatmal-Washim
MANIPUR	2-Outer Manipur (ST)
MEGHALAYA	1-Shillong (ST)
	2-Tura (ST)
MIZORAM	1-Mizoram (ST)
NAGALAND	1-Nagaland
ODISHA	1-Bargarh
	2-Sundargarh (ST)
	3-Sambalpur

(1)

(2)

	10-Bolangir
	11-Kalahandi
	12-Nabarangpur (ST)
	13-Kandhamal
	19-Aska
	20-Berhampur
	21-Koraput(ST)
UTTAR PRADESH	1-Saharanpur
	2-Kairana
	3-Muzaffarnagar
	4-Bijnor
	10-Meerut
	11-Baghpat
	12-Ghaziabad
	13-Gautam Buddha Nagar
	14-Bulandshahr (SC)
	15-Aligarh
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1-Andaman & Nicobar Islands
CHANDIGARH	1-Chandigarh
LAKSHADWEEP	1-Lakshadweep (ST)
NCT OF DELHI	1-Chandni Chowk
	2-North East Delhi
	3-East Delhi
	4-New Delhi
	5-North West Delhi (SC)
	6-West Delhi
	7-South Delhi

(P. K. MALHOTRA)
Secretary to the Government of India
[F.H.-11024(2)/2014-Leg. II]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 464/2014 (3क)

दिनांक : 15 मार्च, 2014

24 फाल्गुन, 1935 (शक)

अधिसूचना

यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 15 मार्च, 2014 (शनिवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, निम्न रूप से नियत करता है :

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में, -

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 22 मार्च, 2014 (शनिवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 24 मार्च, 2014 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 26 मार्च, 2014 (बुधवार)

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा, और 28 मई, 2014 (बुधवार)

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
1 - छत्तीसगढ़		
10- बस्तर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
83- कोन्डागांव (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
84- नारायणपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
85- बस्तर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
87- चित्रकोट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
88- दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
89- बीजापुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
90- कोन्टा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
86-जगदलपुर वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2 - हरियाणा		
1- अम्बाला (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2- कुरुक्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3- सिरसा (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
4- हिसार	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
5- करनाल	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

6- सोनीपत	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
7- रोहतक	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
8- भिवानी-महेन्द्रगढ़	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
9- गुड़गांव	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- फरीदाबाद	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3 - जम्मू व कश्मीर		
6- जम्मू	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
4 - झारखण्ड		
4- चतरा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
5- कोडरमा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
12- लोहरदगा (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
13- पलामू (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
5 - केरल		
1- कासरागोड	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2- कन्नूर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3- वडकरा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
4- वयनाड	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
5- कोझीकोड	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

6- मलप्पुरम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
7- पोन्नानी	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
8- पालककाड	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
9- अलथूर (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- त्रिस्सूर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
11- चालाकुडी	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
12- एरनाकुलम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
13- इडुक्की	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
14- कोट्टयम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
15- अलप्पुझा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
16- मावेलीक्करा (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
17- पथनमथीट्टा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
18- कोल्लम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
19- अट्टिंगल	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
20- तिरुवनन्तपुरम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
6 - मध्य प्रदेश		
09- सतना	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- रीवा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
11- सीधी	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न

		06:00 बजे तक
12- शहडोल (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
13- जबलपुर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
14- मण्डला (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
15- बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
108-बैहर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
109-लांजी वि.स.नि.क्षेत्र		
110-परसवाड़ा वि.स.नि.क्षेत्र		
111-बालाघाट वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
112-वारासिवनी वि.स.नि.क्षेत्र		
113-कटंगी वि.स.नि.क्षेत्र		
114-बरघाट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
115-सिवनी वि.स.नि.क्षेत्र		
16- छिन्दवाड़ा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
17- होशंगाबाद	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
7 - महाराष्ट्र		
5- बुलढाणा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
6- अकोला	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
7- अमरावती (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
8- वर्धा	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
9- रामटेक (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- नागपुर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

11- भन्डारा-गोंदिया	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
12- गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
66- आमगांव (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
67- आरमोरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
68- गडचिरोली (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
69- अहेरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
73-ब्रम्हपुरी वि.स.नि.क्षेत्र 74-चिमुर वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
13- चन्द्रपुर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
14- यवतमाल-वाशिम	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
8 - ओडिशा		
1- बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
1-पदमपुर वि.स.नि.क्षेत्र 2- बिजेपुर वि.स.नि.क्षेत्र 4- अट्टाबीरा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 5- भाटली वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
3- बारगढ़ वि.स.नि.क्षेत्र 6- ब्रजराजनगर वि.स.नि.क्षेत्र 7- झारसुगुडा वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2- सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
8- तल्सरा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 9- सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 10- बीरमित्रपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 11- रघुनाथपाली (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक

वि.स.नि.क्षेत्र 13- राजगंगपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 14- बोगाई (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
12- राउरकेला	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3- सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
15- कुचिन्दा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 16- रेंगली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 18- रैराखोल वि.स.नि.क्षेत्र 19- देवगढ़ वि.स.नि.क्षेत्र 62- छेन्दीपाडा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 63- अठमल्लिक वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
17- सम्बलपुर वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- बोलंगीर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
11- कालाहाण्डी	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
12- नबरंगपुर (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
13- कंधामल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
82- बालीगुडा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 83- जी. चदयगिरि (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 84- फूलबनी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
85- कांतामाल वि.स.नि.क्षेत्र 86- बौध वि.स.नि.क्षेत्र 121- दासपल्ला (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 123- भंजनगर वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

19- अस्का	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
20- बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
127- छतरपुर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
132- गोपालपुर वि.स.नि.क्षेत्र		
133- बरहामपुर वि.स.नि.क्षेत्र		
134- दीगापाहान्डी वि.स.नि.क्षेत्र		
135- चिकित्ती वि.स.नि.क्षेत्र		
136- मोहाना (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
137- परलखेमुण्डी वि.स.नि.क्षेत्र		
21- कोरापुट (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
9 - उत्तर प्रदेश		
1- सहारनपुर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2- कौराना	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3- मुजफ्फरनगर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
4- बिजनौर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
10- मेरठ	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
11- बागपत	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
12- गाजियाबाद	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
13- गौतम बुद्ध नगर	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
14- बुलन्दशहर (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
15- अलीगढ़	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

10 – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
1- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
11 – चंडीगढ़		
1- चंडीगढ़	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
12 – लक्षद्वीप		
1- लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
13 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
1- चांदनी चौक	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
2- उत्तर पूर्व दिल्ली	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
3- पूर्व दिल्ली	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
4- नई दिल्ली	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
5- उत्तर पश्चिम दिल्ली (अ.जा.)	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
6- पश्चिम दिल्ली	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक
7- दक्षिण दिल्ली	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमित मुखर्जी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 464/2014(3A)

Dated the 15th March, 2014
24 Phalgun, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 15th March, 2014 (Saturday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

- (A) Appoints, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule, -
- (a) the 22nd March, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 24th March, 2014 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) the 26th March, 2014 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the date, specified in column (2) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary

constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and

- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

- (B) Fixes the hours specified in Column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election.

SCHEDULE

Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll

No. & Name of Parliamentary Constituency	Date of Poll	Hours of Poll
1	2	3
<u>1 - CHHATTISGARH</u>		
10-Bastar (ST) PC		
83-Kondagaon (ST) AC 84- Narayanpur (ST) AC 85-Bastar (ST) AC 87-Chitrakot (ST) AC 88-Dantewada (ST) AC 89- Bijapur (ST) AC 90-Konta (ST) AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
86-Jagdalpur AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<u>2 - HARYANA</u>		
1-Ambala (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Kurukshetra	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Sirsa (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Hisar	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

5-Karnal	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Sonipat	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Rohtak	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Bhiwani – Mahendragarh	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9- Gurgaon	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Faridabad	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3 - JAMMU & KASHMIR		
6-Jammu	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4 - JHARKHAND		
4-Chatra	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
5-Kodarma	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
12-Lohardaga (ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
13-Palamu (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
5 - KERALA		
1 Kasaragod	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2 Kannur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3 VadaKara	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4 Wayanad	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5 Kozhikode	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6 Malappuram	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7 Ponnani	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8 Palakkad	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9 Alathur (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10 Thrissur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11 Chalakudy	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12 Ernakulam	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13 Idukki	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14 Kottayam	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15 Alappuzha	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16 Mavelikkara (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17 Pathanamthitta	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18 Kollam	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19 Attingal	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20 Thiruvananthapuram	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

6 - MADHYA PRADESH		
09-Satna	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Rewa	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Sidhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Shahdol (ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13-Jabalpur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14-Mandla (ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15-Balaghat PC		
108-Baihar (ST) AC 109-Lanji AC 110-Paraswada AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
111-Balaghat AC 112-Waraseoni AC 113-Katangi AC 114-Barghat (ST) AC 115-Seoni AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16-Chhindwara	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17-Hoshangabad	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7 - MAHARASHTRA		
5-Buldhana	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Akola	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Amravati (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Wardha	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Ramtek (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Nagpur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Bhandara-Gondiya	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Gadchiroli-Chimur (ST) PC		
66-Amgaon (ST) AC 67-Armori (ST) AC 68-Gadchiroli (ST) AC 69-Aheri (ST) AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
73-Brahmapuri AC 74-Chimur AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13-Chandrapur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14-Yavatmal-Washim	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

8 - ODISHA		
1-Bargarh PC		
1-Padampur AC 2-Bijepur AC 4-Attabira (SC) AC 5-Bhatli AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
3-Bargarh AC 6-Brajarajnagar AC 7-Jharsuguda AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Sundargarh (ST) PC		
8-Talsara (ST) AC 9-Sundargarh (ST) AC 10-Biramitrapur (ST) AC 11-Raghunathpali (SC) AC 13-Rajgangpur (ST) AC 14-Bonai (ST) AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
12-Rourkela AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Sambalpur PC		
15-Kuchinda (ST) AC 16-Rengali (SC) AC 18-Rairakhol AC 19-Deogarh AC 62-Chhendipada (SC) AC 63-Athamallik AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
17-Sambalpur AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Bolangir	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
11-Kalahandi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
12-Nabarangpur (ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
13-Kandhamal PC		
82-Baliguda (ST) AC 83-G. Udayagiri (ST) AC 84-Phulbani (ST) AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
85-Kantamal AC 86-Boudh AC 121-Daspalla (SC) AC 123-Bhanjanagar AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Aska	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Berhampur PC		
127-Chhatrapur (SC) AC 132-Gopalpur AC 133-Berhampur AC 134-Digapahandi AC 135-Chikiti AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
136-Mohana (ST) AC	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM

137-Paralakhemundi AC		
21-Koraput(ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
9 - UTTAR PRADESH		
1- Saharanpur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Kairana	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Muzaffarnagar	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Bijnor	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Meerut	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Baghpur	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Ghaziabad	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13-Gautam Buddha Nagar	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14-Bulandshahr (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15-Aligarh	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10 - ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS		
1-Andaman & Nicobar Islands	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11 - CHANDIGARH		
1-Chandigarh	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12 - LAKSHADWEEP		
1-Lakshadweep (ST)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13 - NCT OF DELHI		
1- Chandni Chowk	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2- North East Delhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-East Delhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-New Delhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5-North West Delhi (SC)	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-West Delhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-South Delhi	10 th April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

By order,
Sd./-
(SUMIT MUKHERJEE)
Secretary to the
Election Commission of India.